



# बिहार गजट

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 33 पटना, बुधवार, 22 श्रावण 1936 (श०)  
13 अगस्त 2014 (ई०)

### विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-4
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डी०ए०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्यध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	5-8
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	9-21
पूरक	---
पूरक-क	22-24

# भाग-1

## नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

वित्त विभाग

अधिसूचनाएं

30 जून 2014

सं० को०प्र०/स्था०-22/2012-5586/वि०—बिहार लेखा सेवा नियमावली, 2000 के अध्याय-3 नियम 9 के अर्न्तगत प्रशिक्षण प्राप्त निम्नांकित विवरणी में अंकित “बिहार वित्त (राष्ट्रीय बचत) सेवा सम्मर्ग” के 3 (तीन) राष्ट्रीय बचत पदाधिकारियों को बिहार लेखा सेवा के अर्न्तगत मूल कोटि में लेखा पदाधिकारी के पद पर वेतनमान 9300-34800, ग्रेड पे-4800 रु० के तहत बिहार लेखा सेवा में समायोजित किया जाता है:-

क्र०	पदाधिकारी का नाम/वरीयता क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन	जन्म तिथि	वित्त (राष्ट्रीय बचत) सेवा सम्मर्ग में नियुक्ति तिथि	आरक्षण कोटी
1	2	3	4	5	6
1	श्री राकेश रंजन/10	रा० बचत कार्यपालक पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	15.11.1962	13.08.1990	सामान्य
2	श्री प्रदीप कुमार/15	रा० बचत कार्यपालक पदाधिकारी, सीतामढ़ी	28.01.1963	16.08.1990	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
3	श्री लक्ष्मी नारायण सिंह/16	रा० बचत कार्यपालक पदाधिकारी, मुंगेर	01.02.1963	14.08.1991	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग

2. उपर्युक्त वर्णित समायोजित पदाधिकारियों को बिहार लेखा सम्मर्ग में वरीयता/वित्तीय उन्नयन/प्रोन्नति आदि के लिये उनकी नियुक्ति तिथि (बिहार लेखा सेवा के मूल कोटि के पद भार ग्रहण की तिथि) से बिहार लेखा सेवा नियमावली, 2000 के प्रावधानों के अनुरूप देय होगा।

3. इनकी आपसी वरीयता वही होगी जो राष्ट्रीय बचत सेवा सम्मर्ग में होगी।

4. सेवांत लाभ आदि के लिए सेवा अवधि की गणना हेतु राष्ट्रीय बचत सेवा सम्मर्ग में बितायी गयी सेवा अवधि को जोड़ा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
जयंत कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।

21 जुलाई 2014

सं० 01/स्था०-का.आ.(पदा०)-01/04 (पार्ट)-6479/वि०—वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-5511 दिनांक 27.06.2014 को संशोधित करते हुए श्री शिव नारायण झा, अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै.दा.वि.को.) विभाग, बिहार, पटना का पूर्ण कालिक प्रभार दिया जाता है।

श्री झा को पूर्व आवंटित प्रशाखा-3 एवं प्रशाखा-37(NSDL) के कार्यों से मुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
शशि भूषण पाठक, संयुक्त सचिव।

22 जुलाई 2014

सं० 1/स्था०(अंके०)-06/12-6501-वि०—विभागीय प्रोन्नति समिति की दिनांक 08.07.2014 की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में वित्त (अंकेक्षण) विभाग के निम्नांकित वरीय अंकेक्षक वर्ग-1 को वेतन बैंड पी.बी.-2 + ग्रेड वेतन 4800 रु० में उप लेखा नियंत्रक के पद पर अधिसूचना निर्गत की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी जाती है :-

क्रमांक	वरीयता क्रमांक	नाम
1	1	श्री लक्ष्मण राम
2	28	श्री इन्द्रदेव कुमार 'आनन्द'

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
शशि भूषण पाठक, संयुक्त सचिव ।

23 जुलाई 2014

सं० 1/स्था०(अंके०)-06/12-6557/वि०—विभागीय अधिसूचना संख्या 6501/वि०, दिनांक 22.07.2014 द्वारा प्रोन्नत निम्नांकित उप लेखा नियंत्रकों को उनके नाम के सामने स्तंभ-4 में दर्शाये गये कार्यालय में योगदान की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्रमांक	वरीयता क्रमांक	उप लेखा नियंत्रक का नाम	पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4
1	1	श्री लक्ष्मण राम	वित्त (अंकेक्षण) विभाग (मु०)
2	28	श्री इन्द्रदेव कुमार 'आनन्द'	सारण प्रमंडल, छपरा

2. श्री इन्द्रदेव कुमार 'आनन्द' दिनांक 31.07.2014 को पूर्व पदस्थापित उप लेखा नियंत्रक मो० सफायत हुसैन अंसारी के सेवा निवृत्ति के पश्चात प्रभार ग्रहण करेंगे।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
शशि भूषण पाठक, संयुक्त सचिव ।

30 जुलाई 2014

सं० 01/स्था०(सं.से.)-05/11/6785—बिहार सेवा संहिता के नियम-234 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत श्री शशि भूषण पाठक (बि.प्र.से.), संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को स्वयं की चिकित्सा के निमित्त दिनांक 17.06.2014 से दिनांक 30.06.2014 तक उपभोग किए गए अवकाश को 14 (चौदह) दिनों के रुपांतरित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सुधीर कुमार , अवर सचिव ।

4 अगस्त 2014

सं०1/स्था०(प्र०पदा०)-01/13-7014/वि०—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 8498 दिनांक 23.06.2014 एवं सं० 9639 दिनांक 15.07.2014 के आलोक में निम्नलिखित नवप्रोन्नत प्रशाखा पदाधिकारी के नाम के सामने स्तंभ-3 में अंकित तिथि से योगदान स्वीकृत करते हुये स्तंभ-4 में अंकित प्रशाखा में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है:-

क्र०	प्रशाखा पदाधिकारी का नाम	योगदान की तिथि	आवंटित प्रशाखा
1	2	3	4
1	श्री अनिल चन्द्र श्रीवास्तव	21.07.2014	प्रशाखा-01 (राजपत्रित स्थापना)
2	श्रीमती कुमुद कुमारी	22.07.2014	प्रशाखा-06 (सूचना का अधिकार)
3	श्री राधानन्दन प्रसाद	11.07.2014	प्रशाखा-13 (आयेजन शाखा)
4	श्री अनिल कुमार सिंह	15.07.2014	प्रशाखा-22(वित्त, वै०दा०नि०को०)

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
शशि भूषण पाठक, संयुक्त सचिव ।

## शिक्षा विभाग

## अधिसूचना

5 अगस्त 2014

सं० 2/टि०-9-01/14-2967—जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर के पद पर पदस्थापित रहे श्री नितिश चन्द्र मंडल, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर के पद का प्रभार सौंप कर दिनांक 24.07.2014 के पूर्वाह्न से मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतिक्षा में है, को अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में सहायक निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 2/टि०-9-01/14-2968—अवकाश रक्षित पदाधिकारी, मुख्यालय के पद पर पदस्थापित श्री सुनील कुमार, को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में उप-सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. संबंधित पदाधिकारी अविलंब नव पदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राजेन्द्र राम, निदेशक (प्रशासन)—सह-अपर सचिव।

## ग्रामीण विकास विभाग

## अधिसूचना

5 अगस्त 2014

सं० ग्रा०वि०७(आं)-60/2013-195279—श्रम संसाधन विभाग के अधिसूचना संख्या ज्ञापांक 5/एम०डब्लू०-402/2009 श्र०सं० 1697 पटना दिनांक 19.06.2014 एवं राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णय संसूचन संकल्प सं०-156858 दिनांक 23.07.2013 के आलोक में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत बिहार राज्य में अकुशल श्रमिकों को संदेय मजदूरी की दर अधिसूचना की तिथि के प्रभाव से 162/- (एक सौ बासठ) रुपया से बढ़ाकर 177/- (एक सौ सतहत्तर) रुपया की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
मिथिलेश कुमार सिंह अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 21—571+100-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

## भाग-2

### बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

शिक्षा विभाग

शुद्धि-पत्र

5 अगस्त 2014

सं० 2/एम10-81/13-2969—अधिसूचना संख्या—1900 दिनांक 16.07.14 द्वारा सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना के पद पर पदस्थापित श्री ठाकुर मनोरंजन प्रसाद सिंह को स्थानांतरित कर उप निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण) के पद पर पदस्थापित किया गया है।

उक्त अधिसूचना में अंकित “श्री ठाकुर मनोरंजन प्रसाद सिंह” के स्थान पर “श्री ठाकुर मनोरंजन प्रसाद” पढ़ा जाय।

शेष पूर्ववत् रहेगा।

2. अधिसूचना संख्या—1894 दिनांक 16.07.14 द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमण्डल, पटना के पद पर पदस्थापित श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव को स्थानांतरित कर क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमण्डल, छपरा के पद पर पदस्थापित किया गया है।

उक्त अधिसूचना में अंकित “श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव” के स्थान पर “श्री सुशील श्रीवास्तव” पढ़ा जाय।

शेष पूर्ववत् रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राजेन्द्र राम,  
निदेशक (प्रशासन)—सह-अपर सचिव।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

14 जुलाई 2014

सं० 1/पी०एम०सी०/विविध/955/2014-584—कोशी बाँध कटान न्यायिक जाँच आयोग से प्राप्त अनुशंसा पर अनुवर्ती कार्रवाई जल संसाधन विभाग द्वारा की जा रही है।

2- कोशी बाँध कटान न्यायिक जाँच आयोग द्वारा क्रमांक- 'A' के अन्तर्गत निम्नांकित जाँच अनुशंसित किये गये हैं-

- (i) 2008 बाढ़ के पूर्व एवं विगत 5 वर्षों में वीरपुर कार्यालय द्वारा कराये गये कटाव निरोधक एवं बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों के संदर्भ में जाँच किया जाना।
- (ii) बाढ़ 2008 अवधि में अपर्याप्त मात्रा में बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों की आपूर्ति एवं इसका विभिन्न आक्राम्य स्थलों पर भण्डारण।

- (iii) बाढ़ 2008 के पूर्व कोशी उच्चस्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के विरुद्ध किये गये वास्तविक व्यय में भिन्नता का कारण ।
- (iv) बाढ़ 2008 अवधि के लिए बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों की अधियाचना, इसकी उपलब्धता एवं इसका खपत की जाँच तथा कटाव निरोधक कार्य के संदर्भ में वर्ष 2008 एवं विगत 5 वर्षों के लिए कटाव निरोधक कार्यों की जाँच किया जाना ।
- (v) श्री सत्यनारायण का मुख्य अभियंता, वीरपुर के रूप में पदस्थापन की जाँच ।

3- कोशी बाँध कटान न्यायिक जाँच आयोग के द्वारा की गई अनुशंसा के बिन्दु-A में इंगित कंडिकाओं की जाँच हेतु अभियंता प्रमुख(मध्य) की अध्यक्षता में एक जाँच समिति निम्नवत गठित की जाती है :-

I-	श्री रामपुकार रंजन, अभियंता प्रमुख(मध्य), जल संसाधन विभाग, बिहार	अध्यक्ष
II-	श्री सुशील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव(प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, बिहार	सदस्य
III-	श्री रविन्द्र कुमार शंकर, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल सं0-2, पटना	सदस्य
IV-	श्री मुरलीधर सिंह, रीडर, वाल्मी	सदस्य-सचिव

श्री अजय कुमार सिंह, सहायक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल सं0-4, पटना जाँच समिति को सहयोग प्रदान करेंगे ।

4- यह समिति कंडिका-2 में अंकित आयोग के अनुशंसा के आलोक में जाँचोपरान्त अपना प्रतिवेदन समर्पित करेगी ।

5- यह समिति अधिसूचना निर्गत की तिथि से छः माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन समर्पित करेगी ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विपिन बिहारी मिश्र, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

**14 जुलाई 2014**

सं0 1/पी0एम0सी0/विविध/955/2014-585—कोशी बाँध कटान न्यायिक जाँच आयोग से प्राप्त अनुशंसा पर अनुवर्ती कार्रवाई जल संसाधन विभाग द्वारा की जा रही है ।

2- कोशी बाँध कटान न्यायिक जाँच आयोग द्वारा मुख्यतः निम्नांकित कार्रवाई अनुशंसित किये गये हैं-

- B. क्षेत्रीय अभियंताओं के द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव पर कोशी उच्चस्तरीय समिति एवं गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के स्तर से स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया ।
- C. मोनिटरिंग सेल एवं इसका खराब प्रबंधन, जिसके चलते कठिनाई उत्पन्न हुयी ।

- D. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, कोशी उच्चस्तरीय समिति एवं अनुवीक्षण दल के स्तर से कटाव निरोधक कार्यों का सही मोनिटरिंग नहीं किया जाना ।
- E. कटाव निरोधक कार्य अथवा बाढ़ संघर्षात्मक कार्य का दूरस्थ नियंत्रण प्रणाली ।
- F. चेतावनी व्यवस्था (Alarm system) ।
- G. संवेदक द्वारा उद्भूत दर एवं भुगतान से संबंधित कठिनाईयाँ ।
- H. अनुभवहीन एवं अकुशल अभियंताओं का वीरपुर कार्य स्थल पर कटाव निरोधक एवं बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों में पदस्थापन ।
- I. आक्राम्य स्थलों पर बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों का अग्रिम भण्डारण किया जाना ।
- J. कोई भी व्यवस्था संभावित दुर्घटना को शत-प्रतिशत टाल नहीं सकता है ।
- K. River Engineering एवं बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों में विशेषज्ञता में निरन्तर वृद्धि करने की आवश्यकता ।
- L. e-governance का प्रारम्भ किया जाना ।
- M. मॉनसून अवधि प्रारम्भ होने पर किसी स्थल के रिस्क श्रेणी- A घोषित किये जाने पर सचिव का शीघ्रातिशीघ्र स्थल निरीक्षण किया जाना ।
- N. अभियंता प्रमुख के द्वारा मॉनसून अवधि प्रारम्भ होने के पूर्व कम-से-कम एक निरीक्षण सभी आक्राम्य स्थलों का किया जाना । विशेषकर Trans border river के मामले में ।
- O. बिहार सिंचाई एवं जल निस्सरण नियमावली 2003 में सुधार किया जाना ।
- P. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में अभियंत्रण सम्वर्ग बल में बढ़ोतरी ताकि नदी के समस्याओं का अध्ययन सही ढंग से हो ।
- Q. जल संसाधन विभाग में अभियंत्रण सम्वर्ग बल के रूप में योग्य एवं कार्य-कुशल अभियंताओं की नियुक्ति किया जाना । संविदा पर नियुक्ति पर बल नहीं दिया जाना ।
- R. स्थलों के पहुँच पथ का निरीक्षण ।
- S. Raised Platform का निर्माण किया जाना ।
- T. मॉनसून अवधि के पूर्व आपदा प्रबंधन की पूर्ण तैयार कर लेना ।
- U. बिहार के विभिन्न नदी बेसिन में पर्याप्त संख्या में Hydro Meterological Station का स्थापित किया जाना ।
- V. Ecological Balance के उद्देश्य से सिंचाई/बाढ़ प्रबंधन योजनाओं में Environmental Impact Assessment कराया जाना ।
- W. तटबंध के बीच एवं इसके इर्द-गिर्द तथा नहरों पर अतिक्रमण पर कड़ा रुख तैयार करना।

- X. शिकायत/पुलिस थाने में प्राथमिकी के मामले में इसकी प्रति संबंधित कार्यालय/मुख्यालय, पटना/क्षेत्रीय मुख्यालय में रखा जाना ।
- Y. भारत और नेपाल के बीच पारस्परिक सौहार्द बनाना ।
- Z. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के द्वारा कोशी बाढ़ बचाव के संदर्भ में दिये गये तकनीकी सुझावों का अनुपालन किया जाना ।

3- कोशी बाँध कटान न्यायिक जाँच आयोग द्वारा दी गई अनुशंसाओं के बिन्दु-B से Z तक से संबंधित मामलों पर अभियंता प्रमुख(उत्तर) की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति निम्नवत गठित की जाती है :-

I-	श्री राजेश्वर दयाल, अभियंता प्रमुख(उत्तर), जल संसाधन विभाग, बिहार	अध्यक्ष
II-	श्री इन्दु भूषण कुमार, मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना ।	सदस्य
III-	मो० सोहैल, संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार	सदस्य
IV-	श्री दिनेश प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल सं०-4, पटना	सदस्य
V-	श्री योगेश्वर धारी सिंह, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल सं०-1, पटना	सदस्य-सचिव

श्री परवेज अख्तर, अवर सचिव(प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, बिहार तकनीकी समिति को सहयोग प्रदान करेंगे ।

4- यह समिति कंडिका-2 में अंकित बिन्दुओं के अध्ययनोपरान्त सुधारात्मक कार्रवाई एवं इसके कार्यान्वयन के बिन्दु पर परामर्श के साथ अपना प्रतिवेदन समर्पित करेगी ।

5- यह समिति अधिसूचना निर्गत की तिथि से छः माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन समर्पित करेगी ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विपिन बिहारी मिश्र, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 21—571+20-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>



# भाग-9(ख)

## निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय, सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

अधीक्षक का कार्यालय  
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना

### निविदा सूचना

**सं० 9488**—पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के विभिन्न विभागों में वित्तीय वर्ष 2014-15 अन्तर्गत उपयोग आने वाले दवा, डायगनोस्टिक रैपिड कीट, सर्जिकल सामग्री एवं अन्य सहायक सामग्री आदि के क्रय हेतु बिहार वाणिज्य-कर में निबंधित निर्माताओं/प्राधिकृत विक्रेताओं से मुहरबंद कम्प्यूटराईज टंकित निविदा, प्रकाशन की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के अन्दर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा सभी आवश्यक वॉछित अभिलेखों के साथ आमंत्रित किया जाता है।

बिहार के बाहर के फर्म जो बिहार वाणिज्य-कर में निबंधित नहीं है, वे भी निविदा में इस शर्त के साथ भाग ले सकते हैं कि दर अनुमोदन के पश्चात् क्रय आदेश निर्गत करने के पूर्व बिहार वाणिज्य-कर में निबंधन करा लेंगे अन्यथा उनको क्रय आदेश नहीं दिया जायेगा। तत्पश्चात् क्रय समिति के निर्णयानुसार द्वितीय अनुमोदित दर वाले निविदादाता को क्रय आदेश दिया जायेगा।

निविदा प्रत्येक वर्ग के लिए दो भागों में होगी, तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफे में मुहरबंद तथा लिफाफे के उपर औषधी, डायगनोस्टिक रैपिड कीट, सर्जिकल सामग्री एवं अन्य सहायक सामग्री हेतु तकनीकी निविदा/वित्तीय निविदा सुस्पष्ट रूप से अंकित रहना अनिवार्य होगा। निविदा सिर्फ निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त निविदा/निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के अलावा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त निविदा या फटा/खुला निविदा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा। औषधि, डायगनोस्टिक रैपिड कीट, सर्जिकल सामग्री एवं अन्य सहायक सामग्री हेतु निविदा शर्त के अनुरूप अग्रधन राशि संलग्न करना अनिवार्य होगा, साथ ही निविदा में संलग्न सभी अभिलेख पूर्ण रूप से विषय सूची के साथ पृष्ठांकित होगी। निविदा से संबंधित विस्तृत सूचना [www.prdbihar.org/www.prdbihar.gov.in](http://www.prdbihar.org/www.prdbihar.gov.in) एवं [www.pmch.in](http://www.pmch.in) से डाउनलोड कर या किसी भी दिन कार्यालय अवधि में आवेदन के साथ प्राप्त किया जा सकता है।

स्थान :-पटना

(ह०)—अस्पष्ट,

दिनांक :-25 जुलाई 2014

अधीक्षक।

**PATNA MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, PATNA**

**ASHOK RAJ PATH, PATNA – 800004.**

**NOTICE INVITING TENDER**

**Tender for Drugs, Diagnostic Rapid Kits, Surgical Items and Supporting Miscellaneous Items in  
Category –A, Category-B, Category-C and Category-D**

Patna Medical College and Hospital, Patna is a 1675 bedded hospital with an occupancy rate of more than 95% having all Specialty with 8 intensive Care units catering to need of People of Bihar neighbouring State and countries. To ensure good Quality Healthcare PMCH is aiming towards rational drug management and Procurement to ensure Good Quality drugs and Services as per the gaudiness of Government .

Bids are invited from Interested Companies/ Firm / Manufacturers / Direct Importers / Authorized C&F agents / Sole Distributors / Dealers to Supply essential and other important Drugs, Diagnostic Rapid Kits, Surgical Items and Supporting Miscellaneous Items for the year 2014 – 15. Details of Drugs, Diagnostic Rapid Kits, Surgical Items and Supporting Miscellaneous Items can be available from the office of Superintendent, Patna Medical college & Hospital, Patna during office Hours or on website— [www.prdbihar.org](http://www.prdbihar.org) and [www.pmch.in](http://www.pmch.in) .

**Minimum Eligibility Criteria :-** Bidder Should meet the following criteria to be eligible for bidding for category – A, B, C and D.

- (a) Tender bid is invited for **Drugs, Diagnostic Rapid Kits, Surgical Items and its Supporting Miscellaneous Items** for the eligible interested Companies/ Firm / Manufacturer / Direct Importer / Authorized C & F agent / Sole Distributor / Dealers etc. Manufacturers Company / Bidder which have been blacklisted / De-registered / De-Barred by any Government Institutions / Organization in India are barred for Participating in this tender . Their Bids will not be Considered .
- (b) If Bidder is Dealer / Firm / Sole Distributors / C&F Agent, Original Authorization of Manufacturer Company must be attached and must be mentioned Particular Tender No.- and declaration That the company has not been Blacklisted / De-Registered / De-Barred by any Government Institutions / Organizations in India in his Authorization letter .
- (c) Manufacturer company must have minimum 3 years Old Manufacturing License of the Quoted Product with Latest License Renewal Certificate and Approved Product list . In case of Importer, The Importer Firm must have minimum 3 Years Old Valid Import license of the Quoted product and Proof of Import and Sale of these product in India by the Importer Firm.

For Category – ‘B’ the Importer must be registered by Central Drug Standard Control Organizations in Form -41 under Rule 27A of Drug & Cosmetic Act 1945 for IVD Products only .

Manufacturing License / Import License must be valid on the First Date of Submission Date of the Tender.

- (d) Manufacturer Company must have market Standing in India of Minimum Last 3 Consecutive Financial / Calendar Years between 2011-12 to 2013-14 / 2011 to 2013 respectively (whichever is applicable) issued by the Concerned Licensing Authority for Drug Control Department or Any relevant Govt. Authority for Only Category– ‘A’ ‘B’ and ‘C’. Excluding new molecules formulation.
- (e) WHO GMP / GMP / COPP Certificate for the manufacturing Unit for the Category – ‘A’ and ‘B’. For category ‘C’ and ‘D’ products valid ISO/CE/BIS etc. Certificates, Whichever is applicable to be Submitted.
- (f) Annual Turn Over of the Manufacturer Company Should be minimum Rs. – 25 (Twenty Five) Crores, for Category – ‘A’ and ‘B’ & Rs. – 5 (Five) Crores for Category – ‘C’ and Rs. – 1 (One) Crores for Category – ‘D’ in each Year for Three Consecutive Years between 2011-12 to 2013-14, issued by Registered C.A. bearing his Registration Number .
- (g) Upto Date non Conviction Certificate of Manufacturer Company issued by the Licencing Authority of Drug Control Department under Drug and Cosmetic Act 1940 and the Rules 1945 for Category – ‘A’, ‘B’ and ‘C’. If validity Date is not mentioned in the Non-Conviction Certificate, it must have been issued within 6 Month from First Date of Submission of Tender . For Category – ‘D’ An Affidavit sworn before the First Class Magistrate Stating That **“The Company Or Any Officer of the Company has not been ever Convicted under Relevant Act and Rules”** .

- (h) Income Tax Return for 3 (Three) Consecutive Assessment Years between 2011-12 to 2013-14 for Manufacturing Company.
- (i) Photocopy of PAN Card of Manufacturing Company.
- (j) Bidder shall Submit An Affidavit Stating That **“The Company / Firm has not been Blacklisted / De-Registered / De-Barred by any Govt. Institutions/ Organizations in India and shall also Mentioned Full Name and Address with Telephone/ Fax/Mobile Number in the Affidavit”** .
- (k) If Bidder is Dealer / Sole Distributors / C&F Agent/Authorized by the manufacture it must Submit VAT Registration Certificate, up to Date Drug License Renewal Certificate, Physical Verification Certificate of the Firm issued drugs last One Year from the Date of Submission by the relevant authority, Photocopy of PAN Card and Income Tax Return must be attached in Technical Bid . If the Bidder has not been registered in Bihar Sales Tax Department, they will be required to be registered in Bihar Sales tax Department after award the contract .
- (l) Bidder will be required to Deposit EMD in form of Demand Draft / Banker’s Cheque / Pledge NSC/ Pledge Fixed Deposit receipt in Favour of Superintendent, Patna Medical college & Hospital, Patna of Rs.- 1,00,000/- (One Lacs) for each Category – ‘A’, ‘B’, ‘C’ and ‘D’ Rs.- 50,000/- (Fifty Thousand) .

**Submission Requirement.**—Interested eligible Company wishing to bid, May Submit their Tender in Large Envelope Marked – “Tender of Drugs Category – ‘A’”. This large Envelope Contains Two Separate Sealed Envelope – “One Marked TECHNICAL BID For Category ‘A’ and another Marked Financial Bid for Category ‘A’”. Similarly for Category ‘B’, ‘C’ and ‘D’, Bid Must be submitted in a Separate Envelops Marked accordingly like above .

**Note:- (For All Category Bidders A, B, C and D) –**

1. Mention the names of Drug / Item along with Sr. No. of the Tender Product List for Which you are Bidding (as per Performa – A) and relevant Paper should attached . The relevant Page No. must be mentioned on the Check List Also.

**PROFORMA – A (For Technical Bid)**

Category –A/B/C/D	Sr. No. (as per Tender Item List)	Name of the Drug / Item	Specifications and Strength	Details of Company				
				Name of the Manufacturer Company	Manufacturer License No. (Relevant Page No)	Issued Memo no & date of Market Standing certificate in India by Competent authority (Relevant Page No)	Issued Memo no & date of Non-conviction certificate by Competent authority (Relevant Page No)	Issued Memo no & date of GMP/ Quality certificate by Competent authority (Relevant Page No)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. Bidders are Required to submit separate Bids for each Category .
3. Bidders are required to submit Separate EMD for each Category.
4. Technical Bids not accompanied by Earnest Money or any of the above mentioned Documents shall be rejected .

5. All Documents are attested by Bidder with seal and an Affidavit in original Copy stating That **“If at any stage comes to notice of PMCH for any sources that submitted document in bid is false/fake. The PMCH reserve the right to verify it and If it found that True the Earnest Money of the said Party shall be forfeited and Legal Processing against the Manufacturer Company / Bidder shall be initiated as per Law .”**
6. Bidder of All Category shall submit an Affidavit in Original Copy stating That **“If at any stage comes to notice of PMCH for any Sources that Manufacturer Company / Bidder is Blacklisted / De-registered/ De-Barred has cancelled the Facts . The PMCH reserve the right to verify it and If it found that True the Earnest Money of the said Party shall be forfeited and Legal Processing against the Manufacturer Company / Bidder shall be initiated as per Law .”**
7. Bidder firm shall Quote only single Rate for One Product / Item . If the rate of More than the Single for the same product / item than the rate of the Product will be not considered.

*You are requested to clearly indicate by index each of the submission requirements mentioned in cover A and cover B along with relevant page number in your cover letter/ application accompanying the technical proposal.*

**FINANCIAL BID :-**

1. In case of discrepancy in “In Figure” price and “In Words” price than “In words” price would prevail .
2. For all categories an affidavit has to be given in Financial Bid Envelope that “The rate Quoted (basic rate exclusive VAT) in the financial bid is at least 20% less than the MRP.
3. Quoted Rate of the Drug must not exceed the selling price as fixed by NPPA as per the Provision of DPCO and An Affidavit before the first class magistrate to this effect must be enclosed with financial bid and also mentioned in above affidavit “The Quoted rate is this Financial Bid is Not More than the rate Quoted is any other Government Organization/ institutions for Supply .
4. Price list in Form-V as per provision of DPCO for Drug Item and Price List/MRP List/ Trade Price List for Another Item must be enclosed with the financial Bid.
5. Rate Quoted shall be exclusive of VAT as per “Performa – B”.

**PROFORMA – B (For Financial Bid)**

Category – A/B/C/D	Sr. No. (as per Tender Item List)	Name of the Drug / Item	Specifications and Strength	Name of mfg. company	Mfg. License Number	Pack Size	Rate In Rs. Per Unit i.e. of 1 (One) Tab. /Cap. /Amp. /Vial /Phy./Foil /Bottle/ Tube etc.		MRP(as per MRP Price List /Trade Price List/Form V) as applicable
							In Figure	In Word	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6. Each page of the Financial Bid should be Duly Signed and Sealed by the Tenderer .
7. In Case of Non-Submission of any one or all of the above Financial Bid will be not considered .

**Tender Conditions:**

- i. The tab/Cap./bottle etc. should have mark of "Hospital supply, not for sale".
- ii. Samples of Supplies in each batch will chosen for testing by Government of Bihar notified laboratories.
- iii. Liquidated damages will be levied for delay supply (0.5% per day subject to a maximum of 15%).
- iv. Minimum expiry period of the products should not be less than 18 months or 80% of Self Life from the date on which the store receives the products. If the self life of the products is less than 18 months only, the above condition shall be reduced to 1 year.
- v. If the product fails in quality test, the entire batch will be taken back by the supplier at the supplier's cost and the hospital shall not be responsible for any damage during this period.
- vi. Leaked, soiled, broken containers with damage labels shall not be accounted for the purpose of supply.
- vii. The inner label as well as label on the catch cover/ carton shall bear conspicuously the words, "HOSPITAL SUPPLY NOT FOR SALE" and bolder than those already printed on the label. The above caption shall run from the lower left corner to the top right hand corner.
- viii. Bidder should quote one rate for one product.
- ix. The rate contract will be applicable for the financial year only.
- x. All Affidavit submitted by the first class Magistrate in original copy in each and every tender.
- xi. If the awarded supplier is unable to meet the fully supply at the L<sup>1</sup> rate in given time frame, the award can be given to L<sup>2</sup> bidders by decision of purchase committee.

**Deadline for Submission of Proposal.**—The technical and financial bid in separate sealed envelopes must reach the office of the undersigned within 21 (Twenty One) days of the publication of the tender by Registered post/ Speed Post. In no circumstances the tender will be accepted by hand.

**Opening of Bids.**—Technical Bid will be opened in next working day at 12.30 PM in "Superintendent Office" in presence of Purchase Committee after submission date of this tender. Bidders or Their Authorized Representative are may be present in the Meeting at that Time and Date.

Financial bid of those parties will be opened who qualify in technical bid. The decision of the Purchase Committee of Patna Medical College & Hospital, Patna will be final. The committee reserves the right to cancel the bid at any time without assigning any reason. For further enquiries contact Superintendent Office during office hours on working days.

After being awarded the contract, the awardees will be required to be registered with the Bihar Sales Tax if not registered. The selected Company/ Firm will be immediately informed about the final award. In case the selected Company Firm declines to take up the task at the quoted and approved rates, it would be barred from applying for any tender from PMCH, Patna and will be recommended for black listing by Govt. of Bihar. Also the tender/Security money will be forfeited. Any matter according to dispute leading to court case will be within preview of Patna district only.

Sd-Illegible,  
**Superintendent,**  
**Patna Medical College & Hospital, Patna.**

**CATEGORY – ‘A’**

Sl. No.	Drug Name	Specification/ Strength
<b>A</b>		
1	Amphotericin – B Inj.	All Strength
2	Anafortan Inj.	All strength
3	Anti Scorpion Venom Inj.	All Strength
4	Anesthetic Ether Inhalation	500ml bottle
5	Acyclovir Inj.	500mg, 200mg
6	Amiodarone Inj	All strength
<b>B</b>		
7	Beta Erythropoitin Inj.	All strength
8	Budesonide for Nebulisation	All strength
9	Bupivacaine HCL Inj.	Heavy – 0.5% + 80mg/ml Dextrose Monohydrate
10	Bupivacaine Preservative free	20ml
<b>C</b>		
11	CAPD bag	2 liter bag with integrated asymmetric (1.5%,2.5%,4.25% concentrate with minicap)
12	Carboprost thromethamine Inj.	125mcg, 250mcg
13	Cefodoxime Inj.	All Strength
14	Ceftazidime +Salbactum inj.	All Strength
15	Chlorinated Lime Water (E.C. Lotion)	1.25mg
16	Cefepime Inj.	1gm,500mg, 250mg
17	Chlorohexadin Lotion	All Strength
18	Chlorohexadin Scrub	All Strength
<b>D</b>		
19	Dactinomycin Inj.	0.5mg
20	Depot Fluphenazine inj.	25mg/ml
21	Dextrose Inj. 25%	500ml bottle
22	Dextrose Inj 50%	500ml bottle
23	Doxyphylline Inj.	400mg
24	Doxapram Inj.	50mg
25	Dorepenum Inj.	All Strength
26	DNS I.V.	500ml bottle (0.45% N/2)
27	Dacarbazine Inj.	100mg, 200mg, 500mg
<b>E</b>		
28	Erythropoetion Inj.	All Strength
29	Esmolol Inj.	All Strength
30	Etophylline + Theophylline Inj.	2ml amp (Each 2ml contains Ethophylline 169.40mg & Theophyllin 50.6mg)
31	Etoposide Inj.	All Strength

Sl. No.	Drug Name	Specification/ Strength
<b>F</b>		
32	Fentanyl Inj.	All Strength
<b>H</b>		
33	Heparine Fragmented	All strength
34	Human corionic gonadotropin	2000i.μ., 5000 i.μ., 10000 i.μ.
35	Hepatitis B Immunoglobulin Inj. (HBIG)	All Strength
36	Hydrogen peroxide Solution	100ml, 500ml
37	Hyalouronidas Inj.	1500i.u
<b>I</b>		
38	Imicilastine Inj.	All strength
39	Intralipid Infusion	10%, 20%
40	Iron Surcrose Inj.	500ml bottle
41	Iprapropiceen Bromide Solution for Nebulisation	All strength
42	Ifosfamide Inj.	All Strength
<b>K</b>		
43	Ketamine HCL preservative free	All strength
<b>L</b>		
44	L-Asparaginase inj.	All strength
45	Levofloxacin I.V.	100ml bottle
46	Lignocaine Spary & Mouth Wash	All Strength
47	Lignocaine HCL Jelly	2%, 30gm
48	Lignocaine HCL Viscous	2%, 100ml
49	Lipid solution	All Strength
50	Lorazepam Inj.	2ml amp.
51	Low Molecular Heparin Inj.	0.4mg/40ml, 0.6mg/60ml
<b>M</b>		
52	Mephentermine Inj.	10ml vial (30mg/ml)
53	Methotrexate Inj.	15mg, 50mg, 500mg, 1gm
54	Metoprolol Inj.	All Strength
55	Methyl Prednisolone Inj.	125mg, 250mg, 500mg, 1gm vial
56	Metoclopramide Inj.	2ml amp. (5mg/ml)
57	Morphin Inj.	All strength
<b>N</b>		
58	N-acetylceisteine	All strength
59	Nebuliser Solution with (Salbutamol, IpratopiumBromide, Terbutaline, Steroids)	All Strength
60	Nikethamide Inj.	250mg/ml

Sl. No.	Drug Name	Specification/ Strength
61	Noradrenaline Inj.	4mg/ 2ml amp.
62	NTG amp.	Spray & Patch
63	Notryptiline	25mg
<b>O</b>		
64	Ornidazole infusion	100ml
65	Octreotide Inj.	All Strength
<b>P</b>		
66	Potassium Chloride Inj.	10ml vial
67	Potasole Inj	
68	Penicillin G Inj.	5lac, 10lac.
69	Pancuronium Bromide	All Strength
70	Pethidine Inj.	All Strength
71	Pentazocin Lactate Preservative free	30mg
72	Pipracillin Inj.	All Strength
73	Phenytoin Sodium Inj.	2ml amp. (50mg/ml)
74	Plasma Protein Fraction (PPF)	All Strength
75	Phenargan Inj.	All Strength
76	Piperacillin + Tazobactam Inj.	Vial Containing Piperacillin Sodium-4gm & Tazobactam - 500mg, 2.25gm
77	Promethazine Inj.	All Strength
78	Propofol Inj.	10ml vial (2%)
79	Psoralen (Methoxsalen) Inj.	10mg
80	Perinorm Inj.	All Strength
<b>Q</b>		
81	Quinine Sulphate Inj.	All strength
<b>R</b>		
82	Ropin inj.	7.5%
83	Ropivacain Inj.	20ml vial
84	Ranitidine Inj.	150mg
85	Rocuronium Bromide Inj.	50mg
<b>S</b>		
86	Salbutamol Solution for Nebulization	All strength
87	Salmeterol Xinafoate I.P. Inhaler (Equivalent to Salmeterol 50mg Fluticasone propionate)	50mg + 250mg
88	Sensoricain (Heavy) Inj.	All Strength
89	Sevoflurane Inj.	250mg
90	Sodium Valporate Inj.	All strength
91	Sodium Bicarbonate Inj.	10ml amp. (7.5% w/v)
92	Succinyl Chlonine HCL Inj.	All Strength



Sl. No.	Drug Name	Specification/ Strength
<b>T</b>		
93	Tigecycline Inj.	50mg vial
94	Tramadol preservative free	All Strength
<b>U</b>		
95	Ulinastatin inj.	1 lac i.u./ 5ml vial
<b>V</b>		
96	Vitamine B Complex Inj.	All Strength
<b>W</b>		
97	Water for Injection	2ml, 5ml, 10ml
<b>X</b>		
98	Xylocard Inj.	
99	Xylocain & Adrenaline	2% / Vail
<b>Z</b>		
100	Zoladronic Acid Inj.	4mg

Sd-Illegible,

**Superintendent,**

Patna Medical College &amp; Hospital, Patna.

**CATEGORY – “B”**

Sr. No.	Name of Diagnostics Rapid Kit
1	HIV I & II Rapid Test Kit
2	HBSAG Rapid Test Kit
3	HCV Rapid Test Kit
4	Malaria Test kit a. Antigen (PF/ PAN) b. Antibody (PF/ PV)
5	(i) Dengue Test Kit IgG/IgM (ii) Dengue Test Kit NS <sub>1</sub> Ag + Ab Combo
6	Trop-T Rapid kit
7	Multi stick for Urine (10 parameter)
8	Gluko Strip

Sd-Illegible,

**Superintendent,**

Patna Medical College &amp; Hospital, Patna.

**CATEGORY – “C”**

<b>Sl. No.</b>	<b>Name of Drug</b>	<b>Specification / Strength</b>
<b>A</b>		
1	Absorbable Strap Fixation Device 5mm	0.5mm Absorbable mesh fixation device containing straps made of a copolymer of lactide, glycolide and polydioxanone .
2	Abdominal Binder	
3	Absorbent Gelatin Sponge	
4	Antiseptic Germicidal Solution	
5	Absorbable Adhesion Prevention Barrier Suture	Adhesion Prevention Barrier Sheet (Made up of Oxidized regenerated cellulose)
6	Anacap with R.C. Needle	Size:- 1, 1-0, 2, 2-0, 3, 3-0, 4-0, 5-0
7	Armoured endotracheal tube (dispo)	All Size
<b>B</b>		
8	Bronchocath double lumen tube	All Size
9	B.C.G. Syringe	1ml
<b>C</b>		
10	Catgut Plain With Needle	All Size
11	Chromic Catgut with Needle size :- 8mm to 65mm	All Size
12	Chest Drainage Catheter Tube	All Sizes
13	Central Venus Catheter	Single Lumen, Double Lumen, Triple Lumen
14	Continuous Plexus anaesthesia (needle & Catheter) Kit	
15	Corrugated Rubber Sheet	All Sizes
16	C.V.P Lime catheter 3-Way	All Sizes
<b>D</b>		
17	Drill Bits	All Sizes
<b>E</b>		
18	Epidural Kit (with vacuum bulb)	All sizes
19	Endotracheal Tube Plain and Cuffed	All Sizes
20	Ethilon Black Monofilament Suture	All Sizes
21	Endoscopic Ligacclip large Size	All Sizes
22	Endoloop Chromic Catgut Pre-Formed	All Sizes
<b>G</b>		
23	Gelco Sponge	
24	Gibbons Catheter	
25	Gudel's oropharyngeal Airway	All Sizes
26	Guide Wire Teflon	
<b>I</b>		
27	Infusion syringe/tubing	
28	Infant Feeding Tube	All Sizes
<b>L</b>		
29	L.M.A Disposable	All Sizes
30	Laryngeal Mask Airway	Disposable and Reusable all sizes
<b>M</b>		
31	Melecot Catheter	All Sizes
32	Monofilament suture	Size – 10-0

Sl. No.	Name of Drug	Specifictaion / Strength
33	Microshield	All Sizes
<b>N</b>		
34	Nasogastric Tube	All Sizes
35	Nasopharyngeal Airway	All Sizes
36	Needle Straight	assorted Size
37	Needle Round Body	assorted Size
38	Needle Round Circle Cutting	assorted Size
39	Nasal Oxygen Catheter	All Sizes
<b>P</b>		
40	Polyglycolic Acid Suture	Size:- 1, 1-0, 2, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0
41	Polyglactine 910 Suture	Size:- 1, 1-0, 2, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0
42	Pediatric Set (Measure Volume Set)	Adult and Child
43		
44	Prolene Blue Monofilament Suture	All Sizes
45	P.M.O Line Catheter	All Sizes
46	Preparatory Razor	All Sizes
47	Plaster of Paris Powder	All Strength
<b>R</b>		
48	RAE Tube (north/South Facing)	All Sizes
49	Ready Plaster Roll (P.O.P Roll)	4", 6"
50	Ryles Tube	All Sizes
51	Resvior Bag	All Sizes
<b>S</b>		
52	Silk Suture with R.C. Needle	Size:- 5-0
53	Spirit Surgical	400ml bottle (80-90% Alcohol)
54	Suction catheter with tube	All sizes
55		
56	Stomach Tube	All Sizes
<b>T</b>		
57	Tracheostomy Tube (Cuffed)	All Sizes
58	T- Piece trachea	
<b>U</b>		
59	Urine Collection Bag with Foley's Balloon Catheter size:- 14, 16, 18	200ml Top size Non return valve with hanger facility, Tube length – 100cm
60	Urothreal (Nelaton) Catheter	All size
61	Umbilical cord Clamp	Disposable
<b>W</b>		
62	Water Seal Drainage	

Sd-Illegible,  
**Superintendent,**  
**Patna Medical College & Hospital, Patna.**

**CATEGORY – “D”**

<b>Sl. No.</b>	<b>Name of Drug</b>	<b>Specifictaion / Strength</b>
<b>A</b>		
1	Ambu bag	Adult and Child
<b>C</b>		
2	Cervical Collar	All Sizes
3	Cotton thread	No.- 10
<b>D</b>		
4	Disposable Gown/Apron	All Sizes
5	Disposable Surgeon Mask	
6	Disposable Surgeon Cap	
7	Disposable Nebuliser Face Mask	Adult and Child
<b>E</b>		
8	Examination Gloves	Assorted Size
9	EEG Jelly, EGG Jelly, Ultra Sound Jelly	
<b>G</b>		
10	G. Patch	All Strength
<b>H</b>		
11	HIV Protective Kit	
<b>L</b>		
12	Liquid Hand Wash Soap	All Strength
<b>M</b>		
13	Microcidal Solution for hand wash	All Strength
<b>O</b>		
14	Oxygen Mask Disposable	Adult, Child, Infant
<b>R</b>		
15	Ready Made Adhesive Traction Kit	Adult and Child
<b>S</b>		
16	Skelatal Traction Kit	All Strength
17	Surgical Paper Tape	0.5”, 1”, 1.5”, 2”, 3”, 4”
<b>T</b>		
18	Trocar and Stability Sleeve	11mm, 05mm x 100mm
<b>V</b>		
19	Vacutainer Tube (Plain/ Fluroide/ EDTA)	
<b>X</b>		
20	X- Ray Film Manual (Kodak/ Fuji)	Assorted Size
21	X- Ray Film Digital (Kodak)	Assorted Size
22	Fixer	All Pack Size
23	Developer	All Pack Size

Sd-Illegible,  
**Superintendent,**  
**Patna Medical College & Hospital, Patna.**

**सूचना**

No. 1101—मैं सुरेश पासवान, सहायक अभियंता, पिता—सरयुग पासवान, गांव—तुर्की, पो०—असोई थाना—भगवानपुर, जिला वैशाली, अपना नाम परिवर्तन कर लिया हूँ, अब मैं धम्मस्वरूप सुरेश प्रियदर्शी के नाम से जाना, पहचाना और पुकारा जाऊंगा।

सुरेश पासवान।

No. 1086—I, Rahul Kumar Tripathi, Son of Sudhakar Tiwari, resident P.O.-Dharahara Mela, P.S. Kateya, District Gopalganj, do hereby solemnly affirm and declare that according to my all educational certificates of my name is Rahul Kumar Tripathi, I have changed his name from Rahul Kumar Tripathi to Rahul Tiwary.

RAHUL KUMAR TRIPATHI.

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 21—571+30-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>**

# बिहार गजट

## का

## पूरक(अ0)

## प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

समाहरणालय, मुजफ्फरपुर  
(जिला भूमि सुधार प्रशाखा)

आदेश फलक

1 मार्च 2014

**सं० 21/भू०सु०**—शारदानन्द प्रसाद, राजस्व कर्मचारी पारु अंचल अपने मुशहरी अंचल में राजस्व कर्मचारी के पद पर पदस्थापन की अवधि में दिनांक— 28.07.2006 को निगरानी धावा दल द्वारा मो0 2500.00 (दो हजार पाँच सौ) रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये गये और इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस आरोप में कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1220/भू०सु० दिनांक 04.08.2006 द्वारा निलंबित किया गया।

आरक्षी निरीक्षक —सह— अनुसंधानकर्ता, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, मुजफ्फरपुर के पत्रांक—304, दिनांक 01.09.2006 द्वारा घटना क्रम पर प्रकाश डालते हुए श्री प्रसाद, राजस्व कर्मचारी के भ्रष्ट आचरण, सरकारी कार्य में अशोभनीय एवं दण्ड योग्य आचरण करने के लिए निगरानी थाना काण्ड संख्या—41/2006, दिनांक 28.07.2006 धारा—7/13(2) सह पठित धारा—13(1)(डी0) भा०नि० अधिनियम, 1988 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री शारदानन्द प्रसाद, राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध आरोपों की विवरणी अधिलिखित कर विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया। इनके विरुद्ध गठित आरोपों की विवरणी निम्नवत है:—

### आरोप संख्या :- 01.

दिनांक—28.07.2006 को श्री बाबूलाल साह, पिता—स्व० सुखलाल साह, बीबीगंज, थाना—सदर, जिला—मुजफ्फरपुर के दाखिल—खारिज करने के एवज में मो0 2500.00 (दो हजार पाँच सौ) रुपये रिश्वत लेते हुये निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावा दल द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। जिसकी प्राथमिकी निगरानी थाना काण्ड संख्या—41/2006, दिनांक 28.07.2006 धारा—7/13(2) सह पठित धारा—13(1)(5) भा०नि० अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज है।

### आरोप संख्या :- 02.

इनका यह आचरण लोक सेवक के लिए विहित आचरण के विपरीत है।

### आरोपी द्वारा संचालन पदधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कारण—पृच्छा

श्री बाबूलाल साह मार्च, 2006 में दाखिल—खारिज हेतु आवेदन अंचल अधिकारी कार्यालय में जमा किया था। कर्मचारी प्रतिवेदन में भूमि धार्मिक न्यास बोर्ड के अन्तर्गत पाये जाने पर दाखिल—खारिज के दावा को अस्वीकृत करने का प्रतिवेदन दिया गया, जिसमें अंचल अधिकारी द्वारा सहमत होते हुये दावा अस्वीकृत कर दिया। अतः रिश्वत लेकर दाखिल—खारिज कराने का कोई औचित्य नहीं होता है। श्री साह द्वारा बदला लेने की नीयत से षड्यंत्र के तहत निगरानी विभाग को गुमराह कर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुये फंसाया गया। वास्तव में उक्त राशि पूर्व में ली गयी अग्रिम के एवज में वे लौटाने आये थे।

सरकारी सेवा में कभी भी कोई गलत कार्य नहीं किया हूँ।

### उपस्थापन पदाधिकारी का पक्ष :-

आरोपितकर्मी के विरुद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या-41/06 माननीय निगरानी न्यायालय में चल रहा है। आरोपी द्वारा प्रस्तुत दाखिल-खारिज वाद में कोई स्पष्ट प्रतिवेदन नहीं दिया गया है कि संबंधित भूमि धार्मिक न्यास बोर्ड की है या नहीं। एक हल्का कर्मचारी को इस आशय की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि उनके हल्का की कौन सी जमीन धार्मिक न्यास से सम्बन्धित हैं क्योंकि समय-समय पर इसका सर्वेक्षण हल्का कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। अस्थायी हल्का कार्यालय में किसी व्यक्ति से किसी रूप में अथवा किसी कारणवश नगद राशि प्राप्त करना एवं किसी आवेदन की जांच गहराई एवं गम्भीरता से नहीं कर पूर्वाग्रहपूर्ण ढंग से करना लोकसेवक के संदिग्ध आचरण का द्योतक है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरान्त एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य को देखते हुये जिसमें प्रतिवेदित है कि श्री प्रसाद द्वारा आरोपकर्ता श्री बाबूलाल साह से दाखिल-खारिज वाद संख्या-6028/2005-06 में जो कर्मचारी प्रतिवेदन दिया गया है कि वह धार्मिक न्यास बोर्ड की है अथवा नहीं, यह जानबूझ कर स्पष्ट नहीं किया गया, जबकि उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में यह कहा है कि चूंकि वे जानते थे कि उक्त भूमि धार्मिक न्यास बोर्ड की है तथा अस्वीकृति के प्रस्ताव पर अंचल अधिकारी ने वाद संख्या-6028/2005-06 को अस्वीकृत कर दिये। यह पूर्णतः विरोधाभासी एवं संदिग्ध आचरण का द्योतक है तथा इससे यह साबित होता है कि रिश्वत के लिए ही उनके द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन दिया गया। इस प्रकार श्री प्रसाद, राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध गठित आरोप-पत्र जो गम्भीर प्रकृति के हैं, प्रमाणित पाये गये हैं, के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित, 2007) के नियम-14 के तहत श्री प्रसाद वृहत् शास्ति के दोषी है।

### द्वितीय कारणपृच्छा

श्री प्रसाद को उक्त के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक-261/भू0सु0, दिनांक 28.01.2014 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन प्रतिवेदन संलग्न कर भेजते हुये आदेश दिया गया कि वे अपनी द्वितीय कारण-पृच्छा दें कि क्यों नहीं उनके विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित, 2007) में वर्णित उपबंधों के अन्तर्गत सम्यक दण्ड अधिरोपित किये जाय।

श्री प्रसाद द्वारा इस क्रम में दिनांक 17.02.2014 को अपना द्वितीय कारण-पृच्छा समर्पित किया गया। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि श्री बाबूलाल साह, पिता-श्री सुखलाल साह, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर ने मार्च, 2006 में दाखिल-खारिज कराने हेतु आवेदन अंचल अधिकारी, मुशहरी को दिया, जिस क्रम में श्री प्रसाद ने कर्मचारी प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि केवाला में प्रतिवेदित भूमि धार्मिक न्यास बोर्ड की है या नहीं इसका जिक्र केवाला में नहीं है और न ही केवाला में कोई वाद अंकित है। परन्तु आरोपी का कहना है कि वे जानते थे कि खतियान के आधार पर उक्त भूमि धार्मिक न्यास बोर्ड में आता है।

उक्त से स्पष्ट होता है कि जब वे यह जानते थे कि सम्बन्धित भूमि धार्मिक न्यास बोर्ड में आती है तो उनका दाखिल खारिज वाद संख्या 6028/2005-06 में समर्पित जांच प्रतिवेदन स्पष्ट एवं सम्पूर्ण तथ्यों के साथ होना चाहिए। आरोपी द्वारा दाखिल-कब्जा के बिन्दु पर कोई प्रतिवेदन अंकित नहीं किया गया है। जब आरोपी कहते हैं कि खतियान रामलखन दास चले रामकिशुन दास के नाम है और रामलखन दास ने हरिशंकर पासवान पे0 विशेषर पासवान से केवाला संख्या 13326 दिनांक 06.06.90 को बेच दिया तथा खरीदगी के बाद हरिशंकर पासवान ने दिनांक 08.11.90 को श्री बाबूलाल साह पे0 सुखलाल साह के हाथ केवाला नं. 22627 से बेचा। जिसकी चर्चा श्री बाबूलाल साह के केवाला में भी है। जिसे आरोपी भी स्वीकार करते हैं। उस स्थिति में हल्का कर्मचारी श्री प्रसाद को सभी बिन्दुओं पर जांच कर जांच प्रतिवेदन समर्पित करना चाहिए था। परन्तु ऐसा नहीं करना सरकारी कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं संदिग्ध आचरण का द्योतक है तथा यह कहना कि आपने रिश्वत नहीं ली, असत्य एवं भ्रामक है।

इसके अतिरिक्त श्री प्रसाद का कहना है कि आरोप-कर्ता श्री बाबूलाल साह उनके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया करते थे, जिन्होंने श्री प्रसाद से अग्रिम स्वरूप 3000.00 रुपये लिये थे, किन्तु उनके दाखिल-खारिज के आवेदन को अंचल अधिकारी, मुशहरी के द्वारा अस्वीकृत करने के उपरान्त श्री बाबूलाल साह ने 2500.00 रुपये अस्थायी हल्का कार्यालय में लौटाते वक्त निगरानी विभाग से गिरफ्तार करवा दिया। साथ ही श्री प्रसाद का कहना है कि श्री बाबूलाल साह दिनांक 06.07.2008 को पुनः दाखिल-खारिज हेतु आवेदन दिया था, जिसे भी अस्वीकृत कर दिया गया।

श्री प्रसाद द्वारा प्रस्तुत द्वितीय कारण-पृच्छा में उल्लेखित तथ्यों से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि आरोपकर्ता श्री बाबूलाल साह द्वारा भूमि के दाखिल-खारिज हेतु जो आवेदन दिया गया था, उस क्रम में श्री प्रसाद, राजस्व कर्मचारी ने अपने कर्मचारी प्रतिवेदन में यह कहीं भी प्रतिवेदित नहीं किया है कि सम्बन्धित भूमि धार्मिक न्यास बोर्ड की है जबकि उनके द्वारा विभागीय संचालन के क्रम में संचालन पदाधिकारी को समर्पित स्पष्टीकरण तथा द्वितीय कारण-पृच्छा के क्रम में दी गयी सफाई में यह स्पष्ट किया गया कि वे यह जानते थे कि उक्त भूमि धार्मिक न्यास बोर्ड में ही आता है। यह दोनों Stand आपस में विरोधाभासी है जो इनके संदिग्ध आचरण एवं ईमानदार न होने का द्योतक है। साथ ही अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों को गलत प्रमाणित करने में ये पूर्णतः असफल रहे हैं।

कार्यालय में किसी भी व्यक्ति से राशि लेना जिसे उन्होंने स्वीकार किया है, अवैध है और भ्रष्ट आचरण एवं संदिग्ध ईमानदारी का परिचायक है। रिश्वत लेते हुये निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों पकड़ा जाना अपने आप में स्वतः प्रमाणित है। उनका यह कहना है कि रिश्वत में ली गई राशि वास्तव में उनके द्वारा ट्यूशन पढ़ाने के एवज में श्री साह को पूर्व में दी गयी अग्रिम स्वरूप 3000.00 रुपये में से 2500.00 रुपये वापस करने की बात भ्रामक है। इससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि वे रिश्वत नहीं लिए हैं।

अपराधिक अभियोजन के साथ-साथ विभागीय कार्यवाही चलाने के सम्बन्ध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्र संख्या-3150, दिनांक 21.03.2007 में निहित निदेश निम्न प्रकार है :-

“सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार ने यह निर्णय लिया है कि लोक सेवक के विरुद्ध अपराधिक अभियोजन के साथ-साथ विभागीय कार्यवाही भी चलायी जा सकती है। उसी प्रकार जब लोक सेवक के विरुद्ध सरकारी दायित्वों के निष्पादन में कदाचार, विशेषकर घूस लेते पकड़े जाने के मामले में अपराधिक अभियोजन किये जाते हैं, उन मामलों में भी बिना आपराधिक/फौजदारी मामला के निष्पादन का इन्तजार किये स्वतंत्र रूप से विभागीय कार्यवाही चलायी जा सकती है” इस प्रकार विभागीय निदेश के अनुरूप श्री शारदानन्द प्रसाद, राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही विधि-सम्मत तरीके से संचालित की गयी।

आरोप-पत्र में गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन, आरोपी द्वारा प्रथम एवं द्वितीय कारण-पृच्छा तथा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा समर्पित प्री-ट्रैप एवं पोस्ट ट्रैप मेमोरेण्डम में रिश्वत लेने सम्बन्धी प्राप्त साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि श्री शारदानन्द प्रसाद, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, मुशहरी के विरुद्ध रिश्वत लेने का आरोप सही है। इनका आचरण सरकारी सेवक के लिये अशोभनीय है तथा इन्होंने बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 का उल्लंघन किया है। रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार होने सम्बन्धी प्रमाणित आरोप इतने गम्भीर हैं कि यदि इन्हें कठोरतम दण्ड नहीं दिया जाता है तो सरकारी सेवकों में दायित्वों के निर्वहन में शील-निष्ठा, सत्य निष्ठा तथा पद का दुरुपयोग तथा भ्रष्ट आचरण अपनाने का बढ़ावा मिलेगा। जिससे कर्तव्य के प्रति निष्ठा सुनिश्चित करने एवं लोक सेवा में व्याप्त भ्रष्ट आचरण जैसे जघन्य कुकृत्य को रोकना सम्भव नहीं होगा।

बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम, 165 में स्पष्ट किया गया है कि कपट और बेईमानी, लगातार जान-बूझकर की जानी वाली उपेक्षा और नैतिक कलंक के सभी अपराधों का समुचित दण्ड बर्खास्तगी है।

अतएव, उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 संशोधित, 2007 के नियम-14 के प्रावधानों के तहत रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़े जाने, भ्रष्ट और अमर्यादित आचरण अपनाने के प्रमाणित आरोपों के कारण मैं अनुपम कुमार, (भा०प्र०से०) समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर श्री शारदानन्द प्रसाद, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, मुशहरी, सम्प्रति अंचल कार्यालय, पारू, मुजफ्फरपुर को आदेश निर्गत की तिथि से सेवा से बर्खास्त (Dismiss) करता हूँ।

श्री शारदानन्द प्रसाद, राजस्व कर्मचारी से सम्बन्धित विवरणी निम्न प्रकार है :-

01.	नाम	:-	श्री शारदानन्द प्रसाद
02.	पिता का नाम	:-	स्व० शिवनन्दन भगत,
03.	पदनाम	:-	राजस्व कर्मचारी
04.	जन्म तिथि	:-	04.02.1957
05.	नियुक्ति की तिथि	:-	25.09.1987
06.	वेतनमान	:-	9300-34800+4200
07.	स्थायी पता	:-	ग्राम+पोस्ट-सकरा, मुजफ्फरपुर।

सभी सम्बन्धितों को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

आदेश से,

अनुपम कुमार, भा०प्र०से०

समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 21-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>